

का.आ. 1283(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं० सा० आ० 832(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सुश्रुत आई फाउन्डेशन और रिसर्च सेन्टर 56, लेनिन सारनी, कलकत्ता-700013 द्वारा पश्चिम बंगाल के साथ दक्षिण 24 परगना से शुरू होने वाले सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलता-फिरता यूनिट(मेडिकल कैम्पस-आई केयर) प्रारंभ करने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्रुत आई फाउन्डेशन और रिसर्च सेन्टर 56, लेनिन सारनी, कलकत्ता-700013 द्वारा पश्चिम बंगाल के साथ दक्षिण 24 परगना से शुरू होने वाले सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलता-फिरता यूनिट(मेडिकल कैम्पस-आई केयर) प्रारंभ करने परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तिरासी लाख, पच्चीस हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।